



झाँसी पुलिस

दिनांक-07.07.2021

दुष्कर्म के अभियोग में इनामिया नामजद वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी श्री शिवहरी मीणा के कुशल निर्देशन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री नैपाल सिंह एवं क्षेत्राधिकारी मोठ डा0 प्रदीप कुमार सिंह के निकट पर्यवेक्षण में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक चिरगांव श्री संजय कुमार गुप्ता के नेतृत्व में आज दिनांक 07.07.2021 को उप निरीक्षक श्री उदयवीर सिंह थाना चिरगांव जनपद झाँसी मय पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्ति/वाहनो की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना चिरगांव पर पंजीकृत मु0अ0सं0 15/19 धारा 363/366/376/506 भा.द.वि व 3/4 पोक्सो एक्ट मे नामजद इनामी अभियुक्त धीरज राजपूत पुत्र रामप्रताप राजपूत निवासी पहलापुरा चिरगाँव जिला झाँसी, उम्र करीब 23 वर्ष को गिरफ्तार किया गया एवं विधिक कार्यवाही कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

दिनांक 17/01/2019 को वादिया की तहरीर के आधार पर अभियुक्त 1. धीरज राजपूत पुत्र राम प्रताप राजपूत नि0 मु0 पहलापुरा कस्बा व थाना चिरगांव झाँसी के विरुद्ध तफ्तीश अभियोग संख्या 15/19 धारा 363/366/506 भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया । दिनांक 16/08/2019 को पीडिता की बरामदगी कर माननीय न्यायालय के समक्ष बयान अंकित कराये गये थे जिसके आधार पर अभियोग में धारा 376 भा.द.वि की बढोत्तरी की गई थी । अभियुक्त धीरज उपरोक्त लगातार 02 वर्ष 6 माह से अधिक समय से फरार होने के कारण श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय झाँसी द्वारा 25 हजार रुपये इनामिया घोषित किया गया था । इनामिया अभियुक्त धीरज राजपूत पुत्र राम प्रताप राजपूत नि0 पहलापुरा कस्बा चिरगांव झाँसी को आज दिनांक 07.07.2021 को मुखबिर की सूचना पर उप0 निरी0 श्री उदयवीर सिंह व का0 1124 उमैर अनीश व का0 1079 सन्दीप यादव द्वारा सुल्तानपुरा ओवर ब्रिज के पास गिरफ्तार कर लिया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

❖ धीरज राजपूत पुत्र रामप्रताप राजपूत उम्र करीब 23 वर्ष निवासी पहलापुरा कस्बा व थाना चिरगाँव जिला झाँसी

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम का विवरण:-

- ❖ उपनिरीक्षक श्री उदयवीर सिंह थाना चिरगांव झाँसी
- ❖ का0 1079 सन्दीप कुमार थाना चिरगांव झाँसी
- ❖ का0 1124 उमैर अनीश थाना चिरगांव झाँसी